

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जुलाई 2014—आषाढ़ 12, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 001

आदेश

भोपाल, दिनांक 03 जुलाई 2014

क्र. एफ-57-01-2014-तीन-न.पा.-221.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए निर्मांकित मुक्त निर्वाचन प्रतीक विहित करता है, अर्थात्:—

- (1) नगरपालिक निगम के महापौर या नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष या नगर परिषद् के अध्यक्ष के लिए, संलग्न सूची के भाग—1 में उल्लिखित प्रतीक
- (2) नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के पार्षद के लिए, संलग्न सूची के भाग—2 में उल्लिखित प्रतीक

2. आयोग द्वारा विहित उपरोक्त मुक्त निर्वाचन प्रतीक, उन प्रतीकों के अतिरिक्त होंगे जो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित है.

3. इस विषय के संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-57-01-2009-तीन-1035, दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 एतद्वारा निरस्त की जाती है.

संलग्न:—सूची भाग—1 एवं भाग—2.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## सूची

## भाग 1—महापौर/अध्यक्ष के लिये विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	नल
2.	चाबी
3.	टेबल पंखा
4.	गुब्बारा
5.	स्लेट
6.	बिजली का स्विच
7.	कांच का गिलास
8.	रेडियो
9.	खम्भे पर ट्यूब लाईट
10.	स्टूल
11.	गैस बत्ती
12.	रोड रोलर
13.	बस
14.	सीटी
15.	प्रेसर कुकर
16.	टेबल लैंप
17.	बल्लेबाज
18.	मटका
19.	गाड़ी
20.	बैटरी-टॉर्च
21.	सूरजमुखी
22.	गेहूँ की बाली
23.	सब्जियों की टोकनी
24.	हार
25.	अंगूठी
26.	बैंच
27.	गैस सिलेन्डर
28.	पीपल का पत्ता
29.	हारमोनियम
30.	हस्तचलित पम्प
31.	हाथ चक्की
32.	डबल रोटी
33.	मेज
34.	ब्रीफ केस
35.	मोमबत्तियां
36.	गैस स्टोव
37.	दरवाजा
38.	बुश
39.	बल्ला
40.	जग
41.	वायलिन
42.	बेलन

हस्ता/-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## सूची

## भाग 2— पार्षद के लिये विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	केक
2.	कैमरा
3.	गाजर
4.	पतंग
5.	कोट
6.	टेंट
7.	छत का पंखा
8.	चारपाई
9.	सिलाई की मशीन
10.	नाव
11.	स्कूटर
12.	जीप
13.	ब्लैक बोर्ड
14.	टेलीफोन
15.	टेलीविजन
16.	कप और प्लेट
17.	बरगद का पेड़
18.	लेटर बाक्स (पत्र पेटी)
19.	अलमारी
20.	हाकी और गेंद
21.	डीजल पम्प
22.	दो तलवार और एक ढाल
23.	डोली
24.	फलों सहित नारियल का पेड़
25.	कैंची
26.	बाल्टी
27.	कमीज
28.	फ्राक
29.	केतली
30.	लेडी पर्स
31.	भोंपू
32.	सेव
33.	फसल काटता हुआ किसान
34.	प्रेस

हस्ता/-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.